

वाशिंगटन व्हाइट हाउस ने कहा है कि ओबामा प्रशासन भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है।

इससे पहले अमेरिकी उप राष्ट्रपति जो बाइडन की दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई उच्चचाई देने के लिए भारतीय शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात के बाद दलिली यात्रा संपन्न हुई।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे करनी ने कल संवाददाताओं को बताया, “उपराष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के जसि संदेश को लेकर भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, वह संदेश यह है कि हम भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।”

कसवाल के जवाब में करनी ने कहा, “दोनों देशों के बीच संबंधों ने पछिले कई वर्षों से कसकरात्मक दिशा ली है इसलिए अब इन दोनों देशों के पास पहले से भी ज्यादा घनिष्ठता के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावना है।”

दलिली यात्रा पूरी कर बाइडन आज मुंबई जाएंगे जहां वह अमेरिकी भारत संबंधों पर कव्याख्यान देंगे और उद्योगपतियों, सामुदायिकनेताओं तथा छात्रों से मुलाकात करेंगे।

यह जिक्र करते हुए करनी ने कहा, “उपराष्ट्रपति भारत में आर्थिकवृद्धि, व्यापार, उर्चच्चा और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ सुरक्षा मसलों और शैक्षणिक मसलों जैसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।”

करनी ने कहा, “उनके इस यात्रा पर जाने से पहले मैंने उनसे बात की थी वे इस यात्रा को लेकर बहुत आशान्वति थे। बाइडन और राष्ट्रपति भारत के साथ हमारे संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और वे इस संबंध को और ज्यादा मजबूत तथा सहयोगात्मक बनाने के रास्ते खोज रहे हैं।”

भारत यात्रा से पहले बाइडन ने वैदेशि मंत्री जॉन केरी से मुलाकात की थी। जॉन केरी हाल ही में भारत की सफल यात्रा से लौटे हैं।

(भाषा)